



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 1977/फाल्गुन 9, 1898

No. 68] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 1977/PHALGUNA 9, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th February 1977

G.S.R. 97 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951) and rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Third Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, under the heading "C. Posts carrying pay above the time-scale or special pay in addition to pay in the time scale under the

Central Government when held by members of the Service", against 'Central Bureau of Investigation', for the entries.

Particulars of posts	Pay/Scale of Pay	Special Pay
1	2	3
"Assistant Directors	Senior scale or selection grade	Rs. 300/- (subject to the condition that pay plus special pay does not exceed Rs. 2000/-)
Deputy Inspectors General of Police S.P.E.	Rs. 1600—100—200—2000	Rs. 200/-
Superintendent of Police, S P E.	Senior Scale	Rs. 200/-
Assistant Inspector General of Police S.P.E.	Senior Scale	Rs. 200/-"

The following entries shall be substituted, namely :—

"Assistant Director, CBI/Assistant Inspector General of Police, CBI Senior most Superintendent of Police in those local branches where there is more than one Superintendent of Police/ Superintendent of Police in the Central Units namely Central Investigating Agency I, Central Investigating Agency II, Fraud Squad-I, Fraud Squad-II, Special Unit (Intelligence Cell), Narcotics and Counterfeit Currency, Special Inspection Unit, Central Investigating Unit (A), Central Investigating Unit (C), Central Investigating Unit (P), Central Investigating Unit (F), Central Investigating Unit (B), Central Investigating Unit (Antiques).	Senior time-scale or Selection grade.	Rs. 300/- (subject to the condition that pay plus special pay does not exceed Rs. 2000)
Deputy Inspectors General of Police C.B.I.	Rs. 2000—125/2—2250.	Rs. 200/-
All Superintendents of Police other than those referred to above.	Senior-time scale or selection grade.	Rs. 200/-"

[No. 11047/3/76-AIS(ID)]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 97 (अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में, 'ग-केन्द्रीय सरकार' के अधीन काल वेतनमान से अधिक वेतन वाले अथवा काल वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त, विशेष वेतन वाले पद, जब वे उक्त सेवा के सदस्यों द्वारा धारित हों, शीर्षक के अधीन 'केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो' के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, अर्थात् :—

पद की विविष्टियाँ	वेतन/वेतनमान	विशेष वेतन
1	2	3
"सहायक निदेशक	ज्येष्ठ वेतनमान अथवा चयन श्रेणी	रु० 300 (यद्यपि कि वेतन तथा विशेष वेतन मिलाकर 2000 रु० से अधिक नहीं होता)
पुलिस उप-महानिरीक्षक	रु० 1600-100-200	रु० 200
विशेष पुलिस स्थापन	2000	
पुलिस अधीक्षक,	ज्येष्ठ वेतनमान	रु० 200
विशेष पुलिस स्थापन		
पुलिस सहायक	ज्येष्ठ वेतनमान	रु० 200"
महानिरीक्षक विशेष पुलिस स्थापन		

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी. अर्थात् :—

"सहायक निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/सहायक पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो; ज्येष्ठतम पुलिस अधीक्षक, उन स्थानीय शाखाओं में जहाँ पुलिस अधीक्षक के एक से अधिक पद हों, केन्द्रीय यूनिटों अर्थात्—केन्द्रीय जांच-पड़ताल अभिकरण—I, केन्द्रीय जांच-पड़ताल अभिकरण—II, कपट आरक्षी दल—I, जालसाजी आरक्षी दल II, विशेष यूनिट (आसूचना-सेल), स्वापक एवं जाली मुद्रा, विशेष निरीक्षण यूनिट, केन्द्रीय जांच पड़ताल यूनिट (क) केन्द्रीय जांच-पड़ताल यूनिट (ग) केन्द्रीय जांच-पड़ताल यूनिट (पी)—केन्द्रीय जांच-पड़ताल यूनिट (घ), केन्द्रीय जांच पड़ताल यूनिट (ख) केन्द्रीय जांच पड़ताल यूनिट (पुरावस्तु) में पुलिस अधीक्षक

रु० 300.00 (यद्यपि कि वेतन तथा विशेष वेतन मिलाकर रु० 2000.00 से अधिक नहीं होगा।"

ज्येष्ठ वेतनमान अथवा चयन श्रेणी

1	2	3
पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।	र० 2000-125/2 2250	र० 200.00
ऊपर उल्लिखित को छोड़कर, सभी पुलिस अधीक्षक	अपेक्षित वेतनमान अथवा चयन श्रेणी	र० 200.00"

[सं० 11047/3/76-प्र०भा० मे० (II)]

G.S.R. 98 (B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Second Amendment Rules, 1977.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "C-post carrying pay above the time scale or Special pay in addition when held by members of the service" :—

for the entries :

'NATIONAL POLICE ACADEMY'

Assistant Directors Senior scale Rs. 200/-

the following entries shall be substituted, namely :—

"Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy"

Assistant Directors Senior scale or
selection grade. Rs. 200/-

[No. 11030/1/77-AIS(II)]

सा० का० नि० 98 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा 1(क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम 1977 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में "ग-वे पद, जिनका वेतन काल वेतनमान से अधिक है या जिनके साथ केन्द्रीय सरकार के अधीन, जब पद सेवा के

सदस्यों द्वारा धारित किए गए हों, काल वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन है" शीर्षक के अन्तर्गत :—

प्रविष्टि

'राष्ट्रीय पुलिस अकादमी'

सहायक निदेशक ज्येष्ठ वेतनमान 200 रु०

के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी"

सहायक निदेशक ज्येष्ठ वेतनमान या 200 रु०

चयन श्रेणी

[स० 11030/1/77-प्र०भा०से०(II)]

G.S.R.99(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) first Amendment Rules 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, (i) after rule 9B, the following rule shall be inserted, namely :—

"9C Regulation of pay of members of the service appointed to hold posts in the Central Secretariat in the scale of pay of Rs. 2000—125/2—2250 :—

Notwithstanding anything contained in rules 8 and 9, the pay of members of the service appointed to hold posts in the Central Secretariat and carrying a scale of pay of Rs. 2000—125/2—2250 shall be regulated in the manner indicated below :—

(a) He shall draw pay in the scale of pay of the post; or

(b) his grade pay and a special pay of Rs. 300/- per mensem subject to the condition that the pay and the special pay together do not exceed Rs. 2450/- per mensem."

3. The regulation of pay, in accordance with clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) shall be at the option of the member of the service concerned, which should be obtained on his first appointment to a post carrying pay in the scale of Rs. 2000—125/2—2250 and on every subsequent occasion when there is a change in the scale in which he would have drawn pay but for his appointment to the said post.

(i) in Schedule III, the following shall be added at the end, namely :—

"D. Posts in the Central Secretariat carrying pay above the time-scale or special pay in addition to the time scale when held by members of the service.

Particulars of posts	Pay/Scale of pay	Special pay
Joint Secretaries to the Government of India.	Rs. 2500—125/2—2750	..
Deputy Secretaries to the Government of India.	Senior scale or Selection Grade.	Rs 300/-
Under Secretaries to the Government of India.	Junior scale/ Senior Scale.	Rs 200/- Subject to the condition that pay plus special pay does not exceed Rs. 1700/-

[No. 11030/6/77-AIS(II)]

K.K. JASWAL, Under Secy.

सां. कां. निं. ७९(अ). - अधिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (बेतन) नियम, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (बेतन) संशोधन नियम, 1977 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (बेतन) नियम, 1954 में—

(i) नियम 9 ख के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“9-ग केन्द्रीय सचिवालय में 2000-125/2-2250 रु० के वेतनमान के पदों पर नियुक्ति किए गए सेवा के सदस्यों के वेतन का विनियमन:—नियम 8 और 9 में अन्तर्विष्ट किसी अत के होते हुए भी, केन्द्रीय सचिवालय में 2000-125/2-2250 रु० के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति किए गए सेवा के सदस्यों के वेतन का विनियमन निम्नप्रकार से किया जाएगा :—

(क) वह पद के वेतनमान में वेतन लेगा; या

(ख) वह अपना ग्रेड वेतन और 300 रु० प्रतिमास का विशेष वेतन इस तथ के अधीन रहते हुए लेगा कि वेतन और विशेष वेतन दोनों का मिल कर प्रतिमास 2450 रु० से अधिक न हो ।” ।

3. उप नियम (1) के खंड (क) अथवा (ख) के अनुसार वेतन का विनियमन सेवा के संबंधित सदस्य के विप्ल पर होगा जो 2000-125/2-2250 रु० के वेतनमान वाले पद पर उसको पहली नियुक्ति और ऐसे बाद के प्रत्येक अवसर पर लिया जाना चाहिए जब उस वेतनमान में कोई परिवर्तन हो, जिसमें उसने, यदि उक्त पद पर उसकी नियुक्ति न हुई होती, वेतन लिया होता ;

(ii) अनुसूची III(ग) के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

(घ) केन्द्रीय सचिवालय के वे पद, जिन पर उक्त सेवा के सदस्य नियुक्त होने की स्थिति में, समय वेतनमान से अतिरिक्त वेतन देय हो या समय वेतनमान के अलावा विशेष वेतन देय हो :—

पदों का विवरण	वेतन वेतनमान	विशेष वेतन
1	2	3
भारत सरकार के संयुक्त सचिव	2500-125/2-2750 रु०	
भारत सरकार के उप सचिव	वरिष्ठ वेतनमान या प्रवरण ग्रेड	300 रुपए

1	2	3
भारत सरकार के अवर सचिव	कनिष्ठ वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान	200 रुपए जो इस शत के अधीन है कि वेतन और विशेष वेतन दोनों को मिलाकर 1700 रुपए से अधिक नहीं होगा ।

[सं० 11030/6/77-प्र० भा० से० (II)]

के० के० जैसवाल, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

